



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 31, 2006/माघ 11, 1927

No. 98]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 31, 2006/MAGHA 11, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2006

का.आ. 113(अ)—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 111 (अ) तारीख 1 फरवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. तक (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) के भूखंड, जिसमें बाईपास भी शामिल है, का निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और, उक्त अधिसूचना का सार “डेली मलार” और “दि हिन्दू” दोनों में तारीख 4 अप्रैल, 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुये थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार करके अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली जिले के राधापुरम तालुक के थेरक्कू वल्लीयूर गाँव के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीयगमों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. तक (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि।

जिला : तिरुनेलवेली

तालुक : राधापुरम

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	थेरक्कू वल्लीयूर	917/1ए1	शुष्क	निजी	200	कामराज, पुत्र सुब्रमणिया नादर
		917/1बी1	शुष्क	निजी	200	1) रावारीमुथु, पुत्र वारुवेत, 2) पौउल पंडी, पुत्र पुन्नूसामी नादर
		917/1सी1	शुष्क	निजी	50	1) रामासामी नादर, पुत्र पलईया नादर 2) सेम्बुलिंगम नादर, पुत्र पलईया नादर 3) अनडल पत्नी बालाकृष्णन
		917/2ए1	शुष्क	निजी	350	1) रामासामी नादर, पुत्र पलईया नादर 2) सेलवराज पुत्र थंगासामी नादर 3) अनडल
		917/2बी1	शुष्क	निजी	200	1) सीता, पुत्र सेम्बुलिंगम नादर 2) लक्ष्मी, पत्नी दुरईसामी
		918/1ए1ए	शुष्क	निजी	150	सेम्बुलिंगम, पुत्र सेम्बुलिंगम नादर
		918/1ए2ए	शुष्क	निजी	350	1) सेम्बुलिंगम नादर, पुत्र अप्पापू नादर 2) वसंथा, पुत्री सेम्बुलिंगम नादर 3) नारायणन
		918/1ए3ए	शुष्क	निजी	100	1) सेम्बुलिंगम, पुत्र पलईया नादर 2) रामासामी, पुत्र पलईया नादर 3) सेम्बुलिंगम, पुत्र सेम्बुलिंगम नादर 4) सेम्बुलिंगम, पुत्र अप्पापू नादर 5) कामराज, पुत्र सुब्रमणिया नादर 6) अरुलराज, पुत्र सुब्रमणिया नादर 7) पौउलपंडी, पुत्र पोन्नूसामी नादर 8) जानकी कौटन मिस्स लि
		918/1ए4ए	शुष्क	निजी	150	1) अरुलराज, पुत्र सुब्रमणिया नादर 2) कामराज नादर, पुत्र सुब्रमणिया नादर 3) जानकी कौटन मिस्स लि
		918/1ए5ए	शुष्क	निजी	600	1) पौउलपांडी नादर, पुत्र पोन्नूसामी नादर 2) मुथुपांडी, पुत्र अंडी नादर 3) रथिनसामी, पुत्र मुथुपांडी 4) वेधामणिऋक्कन 5) मध्य रेलवे, मुम्बई
		918/1ए6ए	शुष्क	निजी	50	रथिनसामी नादर, पुत्र लक्ष्मण पंडियन
		918/1बी1ए	शुष्क	निजी	400	रथिनसामी नादर, पुत्र लक्ष्मण पंडियन
		918/1बी2ए	शुष्क	निजी	500	रथिनसामी नादर, पुत्र लक्ष्मण पंडियन
		918/2ए	शुष्क	निजी	1850	1) नागमणि, पुत्र रामा पेरुमल नादर 2) अथि लक्ष्मी, पत्नी सुंदर पंडियम नादर 3) सेत्तुराज, पुत्र दुरईसामी 4) नागराजन, पुत्र सुंदरपांडी 5) मुरुगन, पुत्र दुरईपांडी 6) मास्वेल, पत्नी सेत्तुराज
		932/1ए2ए	शुष्क	निजी	100	अन्ना बोरिसिया राजा, पत्नी अनान्था राजा

1	2	3	4	5	6	7
		932/1बी1	शुष्क	निजी	250	1) प्रलईया नादर, पुत्र वेधामुथु 2) जौनसन, पुत्र पलईया नादर 3) वेधामुथु, पुत्र पलईया नादर 4) क्रिस्टोफेर सेल्वराज, पुत्र पलईया नादर 5) येसुवादियन पोन्नुदुरई, पुत्र पलईया नादर
		932/2ए	शुष्क	निजी	650	पॉउलराज नादर, पुत्र पोन्नाईया नादर
		932/3ए1	शुष्क	निजी	900	पॉउलराज नादर, पुत्र पोन्नाईया नादर
		932/3बी1	शुष्क	निजी	1100	पॉउलराज नादर, पुत्र पोन्नाईया नादर
		932/6ए	शुष्क	निजी	1350	1) डॉ. रमानी, पत्नी रविन्द्रन, 2) डॉ. रविन्द्रन, पुत्र अन्नामलई
		932/8	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	राज्य सरकार
		949/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	50	राज्य सरकार
		950/2ए1बी	शुष्क	निजी	350	1) पदमा, पत्नी एक्सवियर, 2) मुरुगन, पुत्र दुरईपंडी नादर 3) इसाक थॉमस, पुत्र राजमणी नादर 4) भारती, पत्नी स्वयंभू 5) पोनसिंह जेबाकुमार 6) कामराज
		950/2ए2बी	शुष्क	निजी	300	वेल्लईया नादर, पुत्र मरानामुथु नादर
		950/2ए3बी	नाथम	निजी	150	1) थंगापंडी, पुत्र वेल्लईया, 2) रथिनासामी, पुत्र लक्ष्मणी पंडी नादर
		950/2ए4बी	नाथम	निजी	100	थंगासामी नादर, पुत्र वेलायुथा पेरुमल नादर
		950/2ए5बी	शुष्क	निजी	50	1) सुब्बैया नादर, पुत्र नीला पेरुमल नादर 2) अरुलमिगु पथिराकली अम्मन कोयिल, 3) पदमा एक्सवियर, पत्नी एक्सवियर हेन्दी
		956/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	150	राज्य सरकार
		958/1 आई2	शुष्क	निजी	550	परदेशी नादर, पुत्र मरानामुथु नादर
		958/2ए2	शुष्क	निजी	950	सुयाराजया कानी, पुत्र मुरुसामी नादर
		958/2बी2	शुष्क	निजी	1900	थंगामुथु नादर, पुत्र नीला पेरुमल नादर
		959/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	300	राज्य सरकार
		960/1जी	शुष्क	निजी	800	थरमार, पुत्र कृष्णन
		960/1एच	शुष्क	निजी	700	थरमार, पुत्र कृष्णन
		960/1 आई	शुष्क	निजी	400	थरमार, पुत्र कृष्णन
		960/1 जे	शुष्क	निजी	350	थरमार, पुत्र कृष्णन
		960/1 के	शुष्क	निजी	150	थरमार, पुत्र कृष्णन
		961/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	1250	राज्य सरकार
		962/1जी2	शुष्क	निजी	400	1) सुंदर राज, पुत्र सुब्बैया कोनर, 2) जवाहर, पुत्र ज्ञानिएल, 3) जेगन, पुत्र राजमणी, 4) नाग्विराज, पुत्र कृष्णन, 5) पार्वती, पत्नी पिट्टिविया
		962/1जी2	शुष्क	निजी	650	1) दुरईसामी नादर, पुत्र मानुएल नादर 2) मुरुगेशन, पुत्र परमशिवम, 3) बालासिंगम, पुत्र पदवनाथन नादर, 4) सुंदर राज, पुत्र सुब्बैया कोनर 5) जवाहर, पुत्र ज्ञानिएल, 6) जेगन, पुत्र राजमणी 7) नाग्विराजन, 8) पॉउलसामी नादर, 9) ए.पी. पार्थ कुमार
		962/1एच2	शुष्क	निजी	1000	अन्ना बोर्सेरिया राजा, पत्नी अन्नामथा राजा

1	2	3	4	5	6	7
		975/1डी2	शुष्क	निजी	400	1) सधूरकणी, पत्नी वेलायुधम वाथीरि, 2) रामासामी, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 3) कस्थीसन, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 4) चंद्रा, पुत्री वेलायुधम वाथीरि 5) निरजन देवी, पुत्री वेलायुधम वाथीरि
		975/1एफ2	शुष्क	निजी	300	1) सधूरकणी, पत्नी वेलायुधम वाथीरि, 2) रामासामी, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 3) कस्थीसन, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 4) चंद्रा, पुत्री वेलायुधम वाथीरि 5) निरजन देवी, पुत्री वेलायुधम वाथीरि
		975/40	शुष्क	निजी	60	धर्मराज, पुत्र रथिनम नादर
		975/41	शुष्क	निजी	116	1) वाडिवेल वाथीरि, 2) रामासामी वाथीरि 3) वयाना पेरुमल वाथीरि 4) वेलायुधु वाथीरि
		975/42	शुष्क	निजी	68	1) वाडिवेल वाथीरि, 2) रामासामी वाथीरि 3) वयाना पेरुमल वाथीरि 4) वेलायुधु वाथीरि
		975/4बी	शुष्क	निजी	100	1) मुथुस्थाना पेरुमल वाथीरि 2) नटचिथिरमल, 3) मारियल 4) ज्योतिमणी वाथीरि 5) वेथामुथु वाथीरि 6) वेल्लईया वाथीरि 7) विकटर देवादीर, पुत्र वेथामणिक्कम, 8) अरपी के. चारलेस, 9) राजकिली, 10) अधिरसायाकणी
		975/43	शुष्क	निजी	30	1) सेमुअल वाथीरि, पुत्र एथोनी वाथीरि, 2) जॉर्ज, पुत्र थोम्मई एथोनी
		975/44	शुष्क	निजी	270	कलई रत्नम, पुत्र सुब्रमणियन
		975/20बी	शुष्क	निजी	72	1) सधूरकणी, पत्नी वेलायुधम वाथीरि, 2) रामासामी, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 3) चंद्रा, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 4) निरजन देवी, पुत्री वेलायुधम वाथीरि 5) कस्थीसन पुत्री वेलायुधम वाथीरि
		975/32बी	नाथम	निजी	30	वेल्लईया, पुत्र मसिलामणी
		975/33बी	शुष्क	निजी	188	सेमुअल वाथीरि पुत्र नटचिथीरम वाथीरि
		975/34	शुष्क	निजी	40	सेमुअल वाथीरि पुत्र नटचिथीरम वाथीरि
		975/35	शुष्क	निजी	26	सेमुअल वाथीरि पुत्र नटचिथीरम वाथीरि
		975/36	शुष्क	निजी	75	सेमुअल वाथीरि पुत्र नटचिथीरम वाथीरि
		975/39बी	शुष्क	निजी	58	एलेक्जेंडर, पुत्र थयामुथु नादर
		1138/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	200	राज्य सरकार
		1188/4बी	नम	निजी	200	इसाककीमुथु, पुत्र मानभासी कोनर
		1190/3	नम	निजी	100	डॉ. रामाजी, पत्नी रविन्दन
		1190/2ए3बी	नम	निजी	50	सुंदराडीयन, पुत्र पेरिया नादर
		1190/2बी2	नम	निजी	450	सुंदराडीयन, पुत्र पेरिया नादर
		1190/1ए2	नम	निजी	700	अरविंद, पुत्र मणीलाल
		1190/1बी2	नम	निजी	150	1) शंकर राम अय्यर, पुत्र सुब्रमणिया अय्यर 2) श्यामश्री राम अय्यर, पुत्र सुब्रमणिया अय्यर
		1191/2ए	नम	निजी	50	जयामणी, पुत्र जेसू एथोनी
		1191/2बी	नम	निजी	200	वेथामणिक्कम नादर, पुत्र वेथामणिक्कम

2	3	4	5	6	7
	1191/3	नम	निजी	250	पेरूमल कोनर, पुत्र नाम्बि कोनर
	1191/4ए	नम	निजी	50	1) रामा पेरूमल नादर, पुत्र नारायणन पेरूमल नादर, 2) शिवलिंगम, पुत्र मुथुकुट्टी, 3) वैकटचलम, पुत्र मुथुकुट्टी, 4) रामकृष्णन, पुत्र मुथुकुट्टी, 5) जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1191/4बी	नम	निजी	100	जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1191/5	पोरमबोके	राज्य सरकार	50	राज्य सरकार
	1191/6	नम	निजी	50	मारिया रेनुका, पत्नी वरकीस राजन
	1193/1ए1बी	नम	निजी	50	जेया शेखरन, पुत्र विश्वरई नादर
	1193/1ए3बी	नम	निजी	100	अन्ना शांति चंद्रन, पुत्र एंथोनी गनान चंद्रन
	1193/1बी2	नम	निजी	100	लिंगम्मल, पत्नी कृष्णन
	1193/1सी2	नम	निजी	150	लिंगम्मल, पत्नी कृष्णन
	1193/1डी2	नम	निजी	200	लिंगम्मल, पत्नी कृष्णन
	1193/2ए2	नम	निजी	600	गोपाल कृष्णन, पुत्र पेरिया कृष्णा कोनर
	1193/2बी	नम	निजी	100	1) पी. के. रामनाथन, पुत्र पेरिया कृष्णा कोनर 2) गोपाल कृष्णन, पुत्र पेरिया कृष्णन कोनर
	1193/2सी2	नम	निजी	800	पी. के. रामनाथन, पुत्र पेरिया कृष्णा कोनर
	1196/1ए2	नम	निजी	1150	1) सुसई मधीबन गोसथा, पुत्र सिंगरायन गोसथा, 2) लीला मधीबन गोसथा, पुत्र सूरी मधीबन गोसथा, 3) गोबाल कृष्णन, पुत्र पेरिया कृष्णा कोनर
	1196/1बी2	नम	निजी	850	जेबामणी, पुत्र जेसु एंथोनी
	1196/2बी	नम	निजी	1100	पेरूमल कोनर, पुत्र नाम्बि कोनर
	1196/3सी1बी	नम	निजी	500	1) मुथुकुट्टी, पुत्र रामा पेरूमल नादर 2) शिवलिंगम, पुत्र मुथुकुट्टी, 3) वैकटचलम, पुत्र मुथुकुट्टी, 4) रामकृष्णन, पुत्र मुथुकुट्टी, 5) जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1196/3सी2बी	नम	निजी	800	जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1196/3सी3	नम	निजी	100	1) मुथुकुट्टी, पुत्र रामा पेरूमल नादर 2) शिवलिंगम, पुत्र मुथुकुट्टी, 3) वैकटचलम, पुत्र मुथुकुट्टी, 4) रामकृष्णन, पुत्र मुथुकुट्टी, 5) जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1196/5बी2	नम	निजी	50	जोसेफ हालिनस, पुत्र शेखरन
	1196/8	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	राज्य सरकार
	1196/7बी	नम	निजी	2000	मारिया रेणुका, पत्नी वरकीस राजन
	1197/2	नम	निजी	2850	1) वाडाक्कु वल्लीऊर श्री सुब्रमणीया स्वामी कोविल, 2) अरुमुगम, 3) पॉउलसामी नादर
	1198/1बी	नम	निजी	1900	1) अरुल मिखाईल, पुत्र आशीर्वादम, 2) अधिसया दिनाकरन, पुत्र आशीर्वादम, 3) गरहोरी रथिनाराज, 4) वेलराज 5) आशीर्वादम नादर
	1198/2	नम	निजी	800	1) गरहोरी रथिनाराज, पुत्र मुथु नादर 2) शंकरअम्मल, पत्नी गुरुसामी नायडु, 3) अशीवाथा नादर
	1199	पोरमबोके	राज्य सरकार	2150	राज्य सरकार
	1201/2ए1बी	नम	निजी	50	1) सामी नादर, पुत्र पेरूमल नादर 2) चेल्सादुई, पुत्र पॉउल नादर
	1201/2ए2बी	नम	निजी	100	सामी नादर, पुत्र पेरूमल नादर
	1201/2ए3बी	नम	निजी	150	सामी नादर, पुत्र पेरूमल नादर

1	2	3	4	5	6	7
		1201/2ए4बी	नम	निजी	100	1) पॉल नादर पुत्र सामी नादर 2) सामी नादर, पुत्र पेरुमल नादर
		1201/3	नम	निजी	100	अनबालगन, पुत्र श्रीकृष्णा नादर
		1201/4	नम	निजी	100	जॉनसी सहाय रानी, पत्नी अन्ना असीर पुनीथान
		1201/2ए6बी	नम	निजी	50	जॉनसी सहाय रानी, पत्नी अन्ना असीर पुनीथान
		1201/2ए7बी	नम	निजी	50	जॉनसी सहाय रानी, पत्नी अन्ना असीर पुनीथान
		1201/2ए8बी	नम	निजी	50	सामी नादर पुत्र पेरुमल नादर
		1201/2ए9बी	नम	निजी	50	राजलिंगम, पुत्र पेरुमल कोनर
		1207/3जे2	शुष्क	निजी	50	1) हेल्म अरुना, पत्नी जॉर्ज, 2) एथोनी मुथु, पुत्र इसाक नादर, 3) कामराज
		1207/3के2	शुष्क	निजी	100	टी. वल्लीऊर डाना सुदालई सामी कोविल
		1208/4	शुष्क	निजी	50	मैनुएल राजन, पुत्र विनसेंट देवराज
		1208/5	शुष्क	निजी	100	1) धर्मराज फ्रेंकलिन, पुत्र इसाक जयराज, 2) बेबी क्रिस्टी, पत्नी धर्मराज फ्रेंकलिन
		1208/2ए2	शुष्क	निजी	100	1) सामी नादर, पुत्र पेरुमल नादर, 2) सुंदर राज, पुत्र सुब्बाया कोनर, 3) थवामणी पुत्र दुरई नादर, 4) गणेशन, पुत्र सुदालईमुथु नादर, 5) बालासिंगम, पुत्र पल्लपानाथ नादर, 6) जयलक्ष्मी, पत्नी नलान, 7) थंगईया, पुत्र अरुणाधलम, 8) मुथारसु, पुत्र वीरन @ विश्वासम, 9) ईस्थेर सोरन लथा, पुत्री पारिवूरन पंडीयन
		1210/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	2250	राज्य सरकार
		1211/1	शुष्क	निजी	150	मारियल, पत्नी धर्मरत्न वाष्पीरि
		1211/2	शुष्क	निजी	100	अईयप्पन, पुत्र रमईया
		1211/3ए	शुष्क	निजी	1750	अईयप्पन, पुत्र रमईया
		1211/4ए1	शुष्क	निजी	900	1) मैनुएल राजन, पुत्र विनसेंट देवराज, 2) इडविन बॉइट, पुत्र विनसेंट देवराज, 3) इडिया ऑथल कॉरपोरेशन लि.
		1211/4बी1ए	शुष्क	निजी	600	1) जेसुदास, पुत्र थंगाराज, 2) मुथैया, पुत्र एनान, 3) इराथेर अन्ना पाकिअम, पत्नी जेसईया डेविड, 4) त्यागराजन, पुत्र अनबु सुब्रमणियन, 5) वेल्तापंडी, पुत्र पंडी नादर, 6) इडविन बॉइट, पुत्र विनसेंट देवराज
		1211/4बी2ए	शुष्क	निजी	200	मुथैयालिंगन, पुत्र नारायण नादर
		1211/4बी3ए	शुष्क	निजी	250	1) जेसुदास, पुत्र थंगाराज, 2) मुथैया, पुत्र एनान, 3) इराथेर अन्ना पाकिअम, पत्नी जेसईया डेविड, 4) त्यागराजन, पुत्र अनबु सुब्रमणियन, 5) वेल्तापंडी, पुत्र पंडी नादर, 6) इडविन बॉइट, पुत्र विनसेंट देवराज,
		1212/2ए	शुष्क	निजी	250	इयप्पन, पुत्र रमईया
		1220/4	पोरमबोके	राज्य सरकार	950	राज्य सरकार
		1243/1ए	शुष्क	निजी	50	1) दुरईसामी नादर, पुत्र सुब्बाया नादर, 2) अरिवालंगन, पुत्र अरुमुगा पेरुमल, 3) वेल्तापंडी नादर, पुत्र सुब्बाया नादर, 4) वेल्तापंडी

1	2	3	4	5	6	7
		1243/2ए	शुष्क	निजी	750	1) दुर्गसामी नादर, पुत्र सुब्बाया नादर 2) वेलईया, पुत्र सुब्बाया नादर
		1244	पोरमबोके	राज्य सरकार	1200	राज्य सरकार
		1245/1बी1	नम	निजी	1350	1) पेरिया नादर, पुत्र सुदालई माडा नादर 2) स्टेफेन जयराज, पुत्र धवामणी
		1245/3	नम	निजी	250	बेलहिस क्यालवीलि, पत्नी मिखाईल एक्सविवर अनन्था कुमार
		1245/4	नम	निजी	300	गनन मिखाईल, पुत्र एथोनी सवारिमुथु
		1245/5	नम	निजी	400	राजेंद्रन, पुत्र जेम्स मिखाईल राज
		1245/2ए2ए	नम	निजी	700	1) थिराधिया नादर, पुत्र कुमारसामी नादर 2) अरुल गनन मुथु पंडियन, 3) कुमार
		1246/1ए1	नम	निजी	1000	1) शंकरअम्मल, पत्नी गुरुसामी नायडु 2) सुब्रमणियन
		1246/1बी2ए	नम	निजी	100	नूराणी सुबुलक्ष्मी, पत्नी गोपाल कृष्णन
		1246/1बी2सी	नम	निजी	100	नूराणी सुबुलक्ष्मी, पत्नी गोपाल कृष्णन
		1248/1बी1ए	नम	निजी	200	पेरुमल नादर, पुत्र पंडार नादर
		1248/1बी2ए	नम	निजी	200	पलानीसामी, पुत्र वेल नादर
		1248/2ए2ए	नम	निजी	550	एक्सविवर जॉन, पुत्र रसिया नादर
		1248/2बी1ए	नम	निजी	50	1) सेनधूरकनी, पत्नी वेलायुधम वाथीरि 2) रामासामी, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 3) कार्थीसन, पुत्र वेलायुधम वाथीरि 4) चंद्रा, पुत्री वेलायुधम वाथीरि 5) निरंजन देवी, पुत्री वेलायुधम वाथीरि
		1248/3ए2	नम	निजी	400	1) जोसेफ सावरी राजन, पुत्र जॉन स्वामीनाथन, 2) जेसूराज, पुत्र जॉन स्वामीनाथन
		1248/3बी1	नम	निजी	150	1) जोसेफ सावरी राजन, पुत्र जॉन स्वामीनाथन, 2) जेसूराज, पुत्र जॉन स्वामीनाथन
		1250/2	पोरमबोके	राज्य सरकार	250	राज्य सरकार
		1359/8	पोरमबोके	राज्य सरकार	100	राज्य सरकार
		1359/2बी1	नम	निजी	800	रीता, पत्नी सुबा राजा
		1359/3ए2ए	नम	निजी	600	रीता, पत्नी सुबा राजा
		1359/9	नम	निजी	20	1) पलईया नादर, पुत्र मुथईया नादर, 2) सुंदरपंडी, पुत्र पेरिया नादर, 3) पीटर जोस, पुत्र पॉउलराज
		1359/6ए	नम	निजी	400	1) पलईया नादर, पुत्र मुथिया नादर 2) पीटर जोस, पुत्र पॉउलराज
		1359/7ए	नम	निजी	400	1) सुंदरपंडीयन, पुत्र पेरिया नादर, 2) पीटर जोस, पुत्र पॉउलराज
		1360/1ए	नम	निजी	1750	दडकू वल्लीजर श्री सुब्रमणिया सामी कोविल
		1360/2ए1ए	नम	निजी	950	एस.ए. मणी, पुत्र समियाडियन
		1360/2ए2ए	नम	निजी	200	1) संधानअम्मल, पत्नी जेम्स सैमुएल नादर, 2) सेल्वराज नादर
		1360/2बी1	नम	निजी	1150	संधानअम्मल, पत्नी जेम्स सैमुएल नादर
		1360/3ए1	नम	निजी	700	संधानअम्मल, पत्नी जेम्स सैमुएल नादर
		1360/3बी1	नम	निजी	550	जया शेखरन, पुत्र विथिरई नादर
		1431/1बी1ए	नम	निजी	300	1) आंडी कोनर, पुत्र नाम्बि कोनर 2) सामीकन्नु
		1431/1बी2ए	नम	निजी	150	रामाकृष्णन, पुत्र शंकर नारायण
		1431/1सी1ए	नम	निजी	200	रामाकृष्णन, पुत्र शंकर नारायण

1	2	3	4	5	6	7
		1431/1सी2ए	नम	निजी	200	1) मारियाई, पुत्री धर्माकन. 2) मैरी जया, पत्नी राजा शेखरन
		1431/2ए1ए	नम	निजी	650	डेलफीन शेखर, पत्नी एथोनी चंद्रा शेखर
		1431/2ए2ए	नम	निजी	200	1) पेरुमल नादर, पुत्र कलापेरुमल, 2) कारमेगम, पुत्र पेरुमल नादर, 3) सुब्बईया, 4) सुयम्बु अम्मल
		1431/2बी1	नम	निजी	600	योधन वाधियार, पुत्र वीरा सिगामणी नादर
		1432/1	शुष्क	निजी	550	जया शेखरन, पुत्र विथिरई नादर
		1432/2	नम	निजी	100	मुथुलक्ष्मी, पत्नी सुदालईमुथु
		1433/1ए1	नम	निजी	800	1) शंकरअम्मल, पत्नी गुरुसामी नायडु, 2) वल्लीऊर प्राईमरी कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, 3) गिराहोरी रथिनाराज
		1433/1बी1	नम	निजी	400	मुथुलक्ष्मी, पत्नी सुदालईमुथु
		1433/2ए	नम	निजी	50	मुथुलक्ष्मी, पत्नी सुदालईमुथु
		1480/1ए1	नम	निजी	100	1) लक्ष्मीअम्मल, पत्नी रमईया कोनर, 2) वल्लीऊर कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, पानागुडी
		1480/1बी1	नम	निजी	50	1) लक्ष्मीअम्मल, पत्नी रमईया कोनर, 2) वल्लीऊर कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, पानागुडी
		1535/1	नम	निजी	100	1) सूसई रथिनम, पुत्र सिगाराय नादर, 2) एथोनी, पुत्र सिगाराय नादर, 3) थॉमस, पुत्र सिगाराय नादर, 4) राजेंद्रन, पुत्र सिगाराय नादर
		1536/1	पोरमबोके	राज्य सरकार	4250	राज्य सरकार
		1537/4	शुष्क	निजी	300	1) इयादुरई, पुत्र पलईया नादर, 2) मोहनदास, पुत्र पलईया नादर, 3) थिराविअम, पुत्र पलईया नादर, 4) परमराज, पुत्र जोसेफ नादर, 5) नेल्सईयप्पन, पुत्र जोसेफ नादर, 6) गनानदुरई, पुत्र सामीकुट्टी, 7) थिराविया नादर, पुत्र नारायण वेडिपू नादर, 8) नामकनी, पत्नी थागापंडियन, 9) कंजना, पुत्री थागापंडियन, 10) जया गंधम, पुत्र थागापंडियन, 11) सोबना, पुत्री थागापंडियन, 12) मुरली कृष्णन, पुत्र थागापंडियन, 13) पुनराज, 14) जयमलार अन्ना जोथी
		1537/5	शुष्क	निजी	150	थागापंडियन, पुत्र पलईया नादर
		1537/1ए1ए	शुष्क	निजी	150	थागापंडियन, पुत्र पलईया नादर
		1537/6	शुष्क	निजी	50	परम्मा राज, पुत्र जोसेफ नादर
		1537/3	पोरमबोके	राज्य सरकार	50	राज्य सरकार
		1900/1ए	नम	निजी	2300	इसाक्कीअम्मल, पत्नी पेरुमल कोनर
		1900/1बी1	नम	निजी	1800	इसाक्कीअम्मल, पत्नी पेरुमल कोनर
		1900/2ए1	नम	निजी	1150	शांता अम्मल, पत्नी पलईया नादर
		1900/2बी	नम	निजी	550	1) रामा पेरुमल नादर, पुत्र राजदुरई नादर, 2) रामाकृष्णन, पुत्र मुथुकुट्टी, 3) वेंकटचलम, पुत्र मुथुकुट्टी
		1900/3ए	नम	निजी	850	1) रामा पेरुमल नादर, पुत्र राजदुरई नादर, 2) रामाकृष्णन, पुत्र मुथुकुट्टी, 3) वेंकटचलम, पुत्र मुथुकुट्टी
1	2	3	4	5	6	7

		1900/7	पोरमबोके	राज्य सरकार	200	राज्य सरकार
		1900/6	पोरमबोके	राज्य सरकार	50	राज्य सरकार
		1901/1बी1	शुष्क	निजी	100	1) रथिनामणी, पुत्र थंगासामी नादर 2) बाला सुब्रमणियन
		1901/1सी1	शुष्क	निजी	50	1) थिरुमेनी, पुत्र राजमणी नादर 2) मुथुपंडी, पुत्र राजमणी नादर
		1901/3ए1	शुष्क	निजी	150	1) थिरुमेनी, पुत्र राजमणी नादर 2) मुथुपंडी, पुत्र राजमणी नादर
		1901/4ए	शुष्क	निजी	50	पेरिया नादर, पुत्र इसाक्कीमुथु नादर
		1998/1ए	नम	निजी	800	वडाक्कु वल्लीऊर श्री सुब्रमणिया सामी कोविल
		1998/2ए	नम	निजी	400	वडाक्कु वल्लीऊर श्री सुब्रमणिया सामी कोविल
		1999/2	नम	निजी	4400	वडाक्कु वल्लीऊर श्री सुब्रमणिया सामी कोविल
		2000/2बी	नम	निजी	1000	1) मनिक्का नादर, पुत्र कला पेरुमल नादर 2) संरक्षण
		2001/1ए1	नम	निजी	450	1) मनिक्का नादर, पुत्र कला पेरुमल नादर
		2001/1बी1	नम	निजी	50	महालिंगा नादर, पुत्र कला पेरुमल नादर

[फा. सं. भाराप्र/तक/एलए/एमके/थेरक-3(डी)1/2006/एलए-533]

प्रभाकर, उप-सचिव

26961/06-2

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st January, 2006

S.O. 113(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number S.O.111(E), dated the 1st February, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highways No.7, including the bypass, on the stretch from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in the "DAILY MALAR" and "The Hindu", both dated the 4th April, 2005.

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report in respect of Therkkuvalli village of Radhapuram Taluk, Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu, to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose:

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land to be acquired, with or without structure, on National Highways No.7 falling within the stretch from Km 120.000 to Km 224.000 (Madurai - Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

District : Tirunelveli**Taluk : Radhapuram**

Serial number	Name of village	Survey number	Nature of land	Type of land	Area of land (in square metres)	Name of the owners
1	2	3	4	5	6	7
1	Therkku Valliyoor	917/1A1	Dry	Private	200	Kamaraj, S/o. Subramania Nadar
		917/1B1	Dry	Private	200	1) Savarimuthu, S/o. Varuvel, 2) Paul Pandi, S/o. Ponnusamy Nadar
		917/1C1	Dry	Private	50	1) Ramasamy Nadar, S/o. Palaiah Nadar, 2) Sembulingam Nadar, S/o. Palaiah Nadar, 3) Andal, W/o. Balakrishnan
		917/2A1	Dry	Private	350	1) Ramasamy Nadar, S/o. Palaiah Nadar, 2) Selvaraj, S/o. Thangasamy Nadar, 3) Andal
		917/2B1	Dry	Private	200	1) Seetha, S/o. Sembulinga Nadar, 2) Lakshmi, W/o. Duraisamy
		918/1A1A	Dry	Private	150	Sembulingam, S/o. Sembulinga Nadar
		918/1A2A	Dry	Private	350	1) Sembulinga Nadar, S/o. Appavu Nadar, 2) Vasantha, D/o. Sembulingam Nadar, 3) Narayanan
		918/1A3A	Dry	Private	100	1) Sembulingam, S/o. Palaiah Nadar, 2) Ramasamy, S/o. Palaiah Nadar, 3) Sembulingam, S/o. Sembulinga Nadar 4) Sembulingam, S/o. Appavu Nadar, 5) Kamaraj, S/o. Subramania Nadar, 6) Arulraj, S/o. Subramania Nadar, 7) Paulpandi, S/o. Ponnusamy Nadar, 8) Janaki Cotton Mills Ltd.

26951/0-3

1	2	3	4	5	6	7
		918/1A4A	Dry	Private	150	1) Arulraj, S/o. Subramania Nadar, 2) Kamaraj Nadar, S/o. Subramania Nadar, 3) Janaki Cotton Mills Ltd.
		918/1A5A	Dry	Private	600	1) Paulpandi Nadar, S/o. Ponnusamy Nadar, 2) Muthupandi, S/o. Andi Nadar, 3) Rathinasamy, S/o. Muthupandi, 4) Vethamanickam, 5) Central Railway, Mumbai.
		918/1A6A	Dry	Private	50	Rathinsamy Nadar, S/o. Lakshmana Pandian
		918/1B1A	Dry	Private	400	Rathinsamy Nadar, S/o. Lakshmana Pandian
		918/1B2A	Dry	Private	500	Rathinsamy Nadar, S/o. Lakshmana Pandian
		918/2A	Dry	Private	1650	1) Nagamani, S/o. Rama Perumal Nadar, 2) Athi Lakshmi, W/o. Sundara Pandia Nadar, 3) Selvaraj, S/o. Duraisamy, 4) Nagarajan, S/o. Sundarapandi, 5) Murugan, S/o. Duraipandi, 6) Marthal, W/o. Selvaraj
		932/1A2A	Dry	Private	100	Anna Borsia Raja, W/o. Anantha Raja
		932/1B1	Dry	Private	250	1) Palaiah Nadar, S/o. Vethamuthu, 2) Johnson, S/o. Palaiah Nadar, 3) Vethamuthu, S/o. Palaiah Nadar, 4) Christopher Selvaraj, S/o. Palaiah Nadar, 5) Yesuvadian Ponnudurai, S/o. Palaiah Nadar.
		932/2A	Dry	Private	650	Paulraj Nadar, S/o. Ponnaiah Nadar
		932/3A1	Dry	Private	900	Paulraj Nadar, S/o. Ponnaiah Nadar
		932/3B1	Dry	Private	1100	Paulraj Nadar, S/o. Ponnaiah Nadar
		932/6A	Dry	Private	1350	1) Dr. Ramani, W/o. Ravindran, 2) Dr. Ravindran, S/o. Annamalai
		932/8	Poramboke	State Government	100	State Government
		949/2	Poramboke	State Government	50	State Government

1	2	3	4	5	6	7
		950/2A1B	Dry	Private	350	1) Padma, W/o.Xavior, 2) Murugan, S/o.Duraipandi Nadar, 3) Isac Thomas, S/o.Rajamani Nadar, 4) Barathi, W/o.Suyambu, 5) Ponsingh Jebakumar, 6) Kamaraj
		950/2A2B	Dry	Private	300	Chelliah Nadar, S/o. Masanamuthu Nadar
		950/2A3B	Natham	Private	150	1) Thangapandi, S/o. Chelliah, 2) Rathinasamy, S/o. Lakshmana Pandi Nadar
		950/2A4B	Natham	Private	100	Thangasamy Nadar, S/o.Velayutha Perumal Nadar
		950/2A5B	Dry	Private	50	1) Subbiah Nadar, S/o. Neela Perumal Nadar, 2) Arulmigu Pathirakali Amman Kovil, 3) Padma Xavior, W/o.Xavior Hentry
		956/3	Poramboke	State Government	150	State Government
		958/1 I2	Dry	Private	550	Paradesi Nadar, S/o. Masanamuthu Nadar
		958/2A2	Dry	Private	950	Suyarajya Kani, S/o. Gurusamy Nadar
		958/2B2	Dry	Private	1900	Thangamuthu Nadar, S/o. Neela Perumal Nadar
		959/2	Poramboke	State Government	300	State Government
		960/1G	Dry	Private	800	Tharmar, S/o. Krishnan
		960/1H	Dry	Private	700	Tharmar, S/o. Krishnan
		960/1 I	Dry	Private	400	Tharmar, S/o. Krishnan
		960/1 J	Dry	Private	350	Tharmar, S/o. Krishnan
		960/1 K	Dry	Private	150	Tharmar, S/o. Krishnan
		961/1	Poramboke	State Government	1250	State Government
		962/1D2	Dry	Private	400	1) Sundara Raj, S/o. Subbiah Konar, 2) Jawahar, S/o. Daniel, 3) Jegan, S/o. Rajamani, 4) Nambiraj, S/o.Krishnan, 5) Parvathi, W/o.Pitchiah
		962/1G2	Dry	Private	650	1) Duraisamy Nadar, S/o.Manuel Nadar, 2) Murugesan, S/o.Paramasivam, 3)Balasingam, S/o.Padbanathan Nadar, 4) Sundara Raj, S/o. Subbiah Konar, 5) Jawahar, S/o.Daniel, 6) Jegan, S/o.Rajamani, 7) Nambirajan, 8) Paulsamy Nadar, 9) A.P. Parath Kumar
		962/1H2	Dry	Private	1000	Anna Borsia Raja, W/o.Anantha Raja

1	2	3	4	5	6	7
		975/1D2	Dry	Private	400	1) Senthorkani, W/o. Velayutham Vathiri, 2) Ramasamy, S/o. Velayutham Vathiri, 3) Kartheesan, S/o. Velayutham Vathiri, 4) Chandra, D/o. Velayutham Vathiri, 5) Niranjana Devi, D/o. Velayutham Vathiri,
		975/1F2	Dry	Private	300	1) Senthorkani, W/o. Velayutham Vathiri, 2) Ramasamy, S/o. Velayutham Vathiri, 3) Kartheesan, S/o. Velayutham Vathiri, 4) Chandra, D/o. Velayutham Vathiri, 5) Niranjana Devi, D/o. Velayutham Vathiri,
		975/40	Dry	Private	60	Dharmaraj, S/o. Rathinam Nadar
		975/41	Dry	Private	116	1) Vadivel Vathiri, 2) Ramasamy Vathiri, 3) Vayana Perumai Vathiri, 4) Velayutham Vathiri
		975/42	Dry	Private	68	1) Vadivel Vathiri, 2) Ramasamy Vathiri, 3) Vayana Perumai Vathiri, 4) Velayutham Vathiri
		975/4B	Dry	Private	100	1) Mathusoothana Perumal Vathiri, 2) Natchathirammal, 3) Mariyal, 4) Jothimani Vathiri, 5) Vethamuthu Vathiri, 6) Chelliah Vathiri, 7) Victor Devadoss, S/o. Vethamanickam, 8) R.P.K. Charles, 9) Rajakili, 10) Athisayakani
		975/43	Dry	Private	30	1) Samuel Vathiri, S/o. Anthony Vathiri, 2) George, S/o. Thommai Anthony
		975/44	Dry	Private	270	Kalai Selvan, S/o. Subramanian
		975/20B	Dry	Private	72	1) Senthorkani, W/o. Velayutham Vathiri, 2) Ramasamy, S/o. Velayutham Vathiri, 3) Chandra, S/o. Velayutham Vathiri, 4) Niranjana Devi, D/o. Velayutham Vathiri, 5) Kartheesan, D/o. Velayutham Vathiri,
		975/32B	Natham	Private	30	Chelliah, S/o. Masilamani

1	2	3	4	5	6	7
		975/33B	Dry	Private	188	Samuel Vathiri, S/o. Natchathiram Vathiri
		975/34	Dry	Private	40	Samuel Vathiri, S/o. Natchathiram Vathiri
		975/35	Dry	Private	26	Samuel Vathiri, S/o. Natchathiram Vathiri
		975/36	Dry	Private	75	Samuel Vathiri, S/o. Natchathiram Vathiri
		975/39B	Dry	Private	58	Alexandar, S/o. Thangamuthu Nadar
		1138/2	Poramboke	State Government	200	State Government
		1188/4B	Wet	Private	200	Esakkimuthu, S/o. Manamari Konar
		1190/3	Wet	Private	100	Dr. Ramani, W/o. Ravindran
		1190/2A3B	Wet	Private	50	Sundarapandian, S/o. Periya Nadar
		1190/2B2	Wet	Private	450	Sundarapandian, S/o. Periya Nadar
		1190/1A2	Wet	Private	700	Aravind, S/o. Manilal
		1190/1B2	Wet	Private	150	1) Sankara Rama Iyer, S/o. Subramania Iyer, 2) Saganathi Rama Iyer, S/o. Subramania Iyer
		1191/2A	Wet	Private	50	Jebamani, S/o. Jesu Anthony
		1191/2B	Wet	Private	200	Vaithyanatha Nadar, S/o. Narayanan
		1191/3	Wet	Private	250	Perumal Konar, S/o. Nambi Konar
		1191/4A	Wet	Private	50	1) Rama Perumal Nadar, S/o. Narayana Perumal Nadar, 2) Sivalingam, S/o. Muthukutty, 3) Venkatachalam, S/o. Muthukutty, 4) Ramakrishnan, S/o. Muthukutty, 5) Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1191/4B	Wet	Private	100	Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1191/5	Poramboke	State Government	50	State Government
		1191/6	Wet	Private	50	Mariya Renuka, W/o. Varkees Rajan
		1193/1A1B	Wet	Private	50	Jeya Sekaran, S/o. Chithirai Nadar
		1193/1A3B	Wet	Private	100	Anna Santhi Chandran, S/o. Anthony Gnana Chandran
		1193/1B2	Wet	Private	100	Lingammal, W/o. Krishnan
		1193/1C2	Wet	Private	150	Lingammal, W/o. Krishnan
		1193/1D2	Wet	Private	200	Lingammal, W/o. Krishnan
		1193/2A2	Wet	Private	600	Gopala Krishnan, S/o. Periya Krishna Konar

25/9/02/06-4

1	2	3	4	5	6	7
		1193/2B	Wet	Private	100	1) P.K. Ramanathan, S/o. Periya Krishna Konar, 2) Gopala Krishnan, S/o. Periya Krishna Konar
		1193/2C2	Wet	Private	800	P.K. Ramanathan, S/o. Periya Krishna Konar
		1196/1A2	Wet	Private	1150	1) Soosai Mathiban Gostha, S/o. Singarayan Gostha, 2) Leela Mathiban Gostha, S/o. Soosai Mathiban Gostha, 3) Gobala Krishnan, S/o. Periya Krishna Konar
		1196/1B2	Wet	Private	850	Jebamani, S/o. Jesu Anthony
		1196/2B	Wet	Private	1100	Perumal Konar, S/o. Nambi Konar
		1196/3C1B	Wet	Private	500	1) Muthukutty, S/o. Rama Perumal Nadar, 2) Sivalingam, S/o. Muthukutty, 3) Venkatachalam, S/o. Muthukutty, 4) Ramakrishnan, S/o. Muthukutty, 5) Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1198/3C2B	Wet	Private	800	Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1196/3C3	Wet	Private	100	1) Muthukutty, S/o. Rama Perumal Nadar, 2) Sivalingam, S/o. Muthukutty, 3) Venkatachalam, S/o. Muthukutty, 4) Ramakrishnan, S/o. Muthukutty, 5) Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1196/5B2	Wet	Private	50	Joseph Halins, S/o. Sekaran
		1196/8	Poramboke	State Government	250	State Government
		1196/7B	Wet	Private	2000	Mariya Renuka, W/o. Varkees Rajan
		1197/2	Wet	Private	2850	1) Vadakku Vallioor Sri Subramania Swamy Kovil, 2) Arumugam, 3) Paulsamy Nadar
		1198/1B	Wet	Private	1900	1) Arul Micheal, S/o. Asirvatham, 2) Athisaya Dinakaran, S/o. Asirvatham, 3) Grahori Rathinaraj, 4) Velraj, 5) Asirvatham Nadar
		1198/2	Wet	Private	600	1) Grahori Rathinaraj, S/o. Muthu Nadar, 2) Sankarammal, W/o. Gurusamy Naidu, 3) Asivatha Nadar

1	2	3	4	5	6	7
		1199	Poramboke	State Government	2150	State Government
		1201/2A1B	Wet	Private	50	1) Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar, 2) Chelladurai, S/o. Paul Nadar
		1201/2A2B	Wet	Private	100	Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar
		1201/2A3B	Wet	Private	150	Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar
		1201/2A4B	Wet	Private	100	1) Paul Nadar, S/o. Samy Nadar, 2) Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar
		1201/3	Wet	Private	100	Anbalagan, S/o. Srikrishna Nadar
		1201/4	Wet	Private	100	Johnsi Sahaya Rani, W/o. Anna Asir Punithan
		1201/2A6B	Wet	Private	50	Johnsi Sahaya Rani, W/o. Anna Asir Punithan
		1201/2A7B	Wet	Private	50	Johnsi Sahaya Rani, W/o. Anna Asir Punithan
		1201/2A8B	Wet	Private	50	Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar
		1201/2A9B	Wet	Private	50	Rajalingam, S/o. Perumal Konar
		1207/3J2	Dry	Private	50	1) Helan Aruna, W/o. Gerge, 2) Anthony Muthu, S/o. Isac Nadar, 3) Kam'araj
		1207/3K2	Dry	Private	100	T. Vallioor Dana Sudalai Samy Kovil
		1208/4	Dry	Private	50	Manuel Rajan, S/o. Vincent Devaraj
		1208/5	Dry	Private	100	1) Dharmaraj Franklin, S/o. Isac Jeyaraj, 2) Baby Christy, W/o. Dharmaraj Franklin
		1208/2A2	Dry	Private	100	1) Samy Nadar, S/o. Perumal Nadar, 2) Sundara Raj, S/o. Subbiah Konar, 3) Thavamani, S/o. Durai Nadar, 4) Ganesan, S/o. Sudalaiaimuthu Nadar, 5) Balasingam, S/o. Palpanatha Nadar, 6) Jeyalakshmi, W/o. Nalan, 7) Thangaiah, S/o. Arunachalam, 8) Mutharasu, S/o. Veeran @ Visuvasam, 9) Esther Sorna Latha, D/o. Pariboorana Pandian
		1210/1	Poramboke	State Government	2250	State Government

1	2	3	4	5	6	7
		1211/1	Dry	Private	150	Mariyal, W/o. Dharmakkan Vathiri
		1211/2	Dry	Private	100	Iyappan, S/o. Ramaiah
		1211/3A	Dry	Private	1750	Iyappan, S/o. Ramaiah
		1211/4A1	Dry	Private	900	1) Manuel Rajan, S/o. Vincent Devaraj, 2) Edwin Bright, S/o. Vincent Devaraj, 3) India Oil Corporation Ltd
		1211/4B1A	Dry	Private	600	1) Jesudhas, S/o. Thangaraj, 2) Muthiah, S/o. Enan, 3) Esther Anna Packiam, W/o. Jesaiah David, 4) Thiyagarajan, S/o. Anbu Subramanian, 5) Chellapandi, S/o. Pandi Nadar, 6) Edwin Bright, S/o. Vincent Devaraj,
		1211/4B2A	Dry	Private	200	Mathiyalagan, S/o. Narayana Nadar
		1211/4B3A	Dry	Private	250	1) Jesudhas, S/o. Thangaraj, 2) Muthiah, S/o. Enan, 3) Esther Anna Packiam, W/o. Jesaiah David, 4) Thiyagarajan, S/o. Anbu Subramanian, 5) Chellapandi, S/o. Pandi Nadar, 6) Edwin Bright, S/o. Vincent Devaraj,
		1212/2A	Dry	Private	250	Iyappan, S/o. Ramaiah
		1220/4	Poramboke	State Government	950	State Government
		1243/1A	Dry	Private	50	1) Duraisamy Nadar, S/o. Subbiah Nadar, 2) Arivalagan, S/o. Arumuga Perumal, 3) Velaiyah Nadar, S/o. Subbiah Nadar, 4) Vellaiyan
		1243/2A	Dry	Private	750	1) Duraisamy Nadar, S/o. Subbiah Nadar, 2) Velaiyah, S/o. Subbiah Nadar
		1244	Poramboke	State Government	1200	State Government
		1245/1B1	Wet	Private	1350	1) Periya Nadar, S/o. Sudalai Mada Nadar, 2) Stephen Jeyaraj, S/o. Thavamani
		1245/3	Wet	Private	250	Belhis Kayalvili, W/o. Michael Xavier
		1245/4	Wet	Private	300	Anantha Kumar Gnana Michael, S/o. Anthony Savarnnuthu

1	2	3	4	5	6	7
		1245/5	Wet	Private	400	Rajendran, S/o. James Michael Raj
		1245/2A2A	Wet	Private	700	1) Thiravia Nadar, S/o. Kumarasamy Nadar, 2) Arul Gnana Muthu Pandian, 3) Kumar
		1246/1A1	Wet	Private	1000	1) Sankarammal, W/o. Gurusamy Naidu, 2) Subramanian
		1246/1B2A	Wet	Private	100	Noorani Subbulakshmi, W/o. Gopala Krishnan
		1246/1B2C	Wet	Private	100	Noorani Subbulakshmi, W/o. Gopala Krishnan
		1248/1B1A	Wet	Private	200	Perumal Nadar, S/o. Pandara Nadar
		1248/1B2A	Wet	Private	200	Palanisamy, S/o. Vel Nadar
		1248/2A2A	Wet	Private	550	Xavior John, S/o. Rasaiah Nadar
		1248/2B1A	Wet	Private	50	1) Senthookani, W/o. Velayutham Vathiri, 2) Ramasamy, S/o. Velayutham Vathiri, 3) Kartheesan, S/o. Velayutham Vathiri, 4) Chandra, D/o. Velayutham Vathiri, 5) Niranjana Devi, D/o. Velayutham Vathiri,
		1248/3A2	Wet	Private	400	1) Joseph Savari Rajan, S/o. John Swaminathan, 2) Jesuraj, S/o. John Swaminathan
		1248/3B1	Wet	Private	150	1) Joseph Savari Rajan, S/o. John Swaminathan, 2) Jesuraj, S/o. John Swaminathan
		1250/2	Poramboke	State Government	250	State Government
		1359/8	Poramboke	State Government	100	State Government
		1359/2B1	Wet	Private	800	Reeta, W/o. Suba Raja
		1359/3A2A	Wet	Private	600	Reeta, W/o. Suba Raja
		1359/9	Wet	Private	20	1) Palaiah Nadar, S/o. Muthiah Nadar, 2) Sundarapandi, S/o. Periya Nadar, 3) Peter Jose, S/o. Paulraj
		1359/6A	Wet	Private	400	1) Palaiah Nadar, S/o. Muthiah Nadar, 2) Peter Jose, S/o. Paulraj
		1359/7A	Wet	Private	400	1) Sundarapandian, S/o. Periya Nadar, 2) Peter Jose, S/o. Paulraj
		1360/1A	Wet	Private	1750	Vadaku Vallioor Sri Subramania Samy Kovil

1	2	3	4	5	6	7
		1360/2A1A	Wet	Private	950	S.A. Mani, S/o. Samiyadiyan
		1360/2A2A	Wet	Private	200	1) Santhanammal, W/o. James Samuel Nadar, 2) Selvaraj Nadar
		1360/2B1	Wet	Private	1150	Santhanammal, W/o. James Samuel Nadar
		1360/3A1	Wet	Private	700	Santhanammal, W/o. James Samuel Nadar
		1360/3B1	Wet	Private	550	Jeya Sekaran, S/o. Chithirai Nadar
		1431/1B1A	Wet	Private	300	1) Andi Konar, S/o. Nambi Konar, 2) Samikannu
		1431/1B2A	Wet	Private	150	Ramakrishnan, S/o. Sankara Narayanan
		1431/1C1A	Wet	Private	200	Ramakrishnan, S/o. Sankara Narayanan
		1431/1C2A	Wet	Private	200	1) Mariyayi, D/o. Dharmakkan, 2) Mary Jeya, W/o. Raja Sekaran
		1431/2A1A	Wet	Private	650	Delphin Sekar, W/o. Anthony Chandra Sekar
		1431/2A2A	Wet	Private	200	1) Perumal Nadar, S/o. Kalaperumal, 2) Karmegam, S/o. Perumal Nadar, 3) Subbiah, 4) Suyambu Ammal
		1431/2B1	Wet	Private	600	Yovan Vathiyar, S/o. Veera Sigamani Nadar
		1432/1	Dry	Private	550	Jeya Sekaran, S/o. Chithirai Nadar
		1432/2	Wet	Private	100	Muthulakshmi, W/o. Sudalaimuthu
		1433/1A1	Wet	Private	800	1) Sankarammal, W/o. Gurusamy Naidu, 2) Vallioor Primary Co-operative Land Development Bank, 3) Girahori Rathinaraj
		1433/1B1	Wet	Private	400	Muthulakshmi, W/o. Sudalaimuthu
		1433/2A	Wet	Private	50	Muthulakshmi, W/o. Sudalaimuthu
		1480/1A1	Wet	Private	100	1) Lakshmi Ammal, W/o. Ramaiah Konar, 2) Vallioor Co-operative Land Development Bank, Panagudi
		1480/1B1	Wet	Private	50	1) Lakshmi Ammal, W/o. Ramaiah Konar, 2) Vallioor Co-operative Land Development Bank, Panagudi
		1535/1	Wet	Private	100	1) Soosai Rathinam, S/o. Singaraya Nadar, 2) Anthony, S/o. Singaraya Nadar, 3) Thomas, S/o. Singaraya Nadar, 4) Rajendran, S/o. Singaraya Nadar

1	2	3	4	5	6	7
		1536/1	Poramboke	State Government	4250	State Government
		1537/4	Dry	Private	300	1) Iyadurai, S/o. Palaiah Nadar, 2) Mohandhas, S/o. Palaiah Nadar, 3) Thiraviam, S/o. Palaiah Nadar, 4) Paramaraj, S/o. Joseph Nadar, 5) Nellaiyappan, S/o. Joseph Nadar, 6) Gnanadurai, S/o. Samikutty, 7) Thiravia Nadar, S/o. Narayana Vadivoo Nadar, 8) Namakani, W/o. Thagapandian, 9) Kanjana, D/o. Thagapandian, 10) Jeya Gandhan, S/o. Thagapandian, 11) Sobana, D/o. Thagapandian, 12) Murali Krishnan, S/o. Thagapandian, 13) Ponraj, 14) Jeyamalar Anna Jothi
		1537/5	Dry	Private	150	Thangapandian, S/o. Palaiah Nadar
		1537/1A1A	Dry	Private	150	Thangapandian, S/o. Palaiah Nadar
		1537/8	Dry	Private	50	Pramma Raj, S/o. Joseph Nadar
		1537/3	Poramboke	State Government	50	State Government
		1900/1A	Wet	Private	2300	Esakkiammai, W/o. Perumal Konar
		1900/1B1	Wet	Private	1800	Esakkiammai, W/o. Perumal Konar
		1900/2A1	Wet	Private	1150	Santha Ammal, W/o. Palaiah Nadar
		1900/2B	Wet	Private	550	1) Rama Perumal Nadar, S/o. Rajadurai Nadar, 2) Ramakrishnan, S/o. Muthukutty, 3) Venkatachalam, S/o. Muthukutty
		1900/3A	Wet	Private	850	1) Rama Perumal Nadar, S/o. Rajadurai Nadar, 2) Ramakrishnan, S/o. Muthukutty, 3) Venkatachalam, S/o. Muthukutty
		1900/7	Poramboke	State Government	200	State Government
		1900/6	Poramboke	State Government	50	State Government

1	2	3	4	5	6	7
		1901/1B1	Dry	Private	100	1) Rathinamani, S/o. Thangasamy Nadar, 2) Bala Subramanian
		1901/1C1	Dry	Private	50	1) Thirumeni, S/o. Rajamani Nadar, 2) Muthupandi, S/o. Rajamani Nadar
		1901/3A1	Dry	Private	150	1) Thirumeni, S/o. Rajamani Nadar, 2) Muthupandi, S/o. Rajamani Nadar
		1901/4A	Dry	Private	50	Periya Nadar, S/o. Esakkimuthu Nadar
		1998/1A	Wet	Private	800	Vadaku Vallioor Sri Subramania Samy Kovil
		1998/2A	Wet	Private	400	Vadaku Vallioor Sri Subramania Samy Kovil
		1999/2	Wet	Private	4400	Vadaku Vallioor Sri Subramania Samy Kovil
		2000/2B	Wet	Private	1000	1) Manicka Nadar, S/o. Kala Perumal Nadar, 2) Sankaran
		2001/1A1	Wet	Private	450	Manicka Nadar, S/o. Kala Perumal Nadar
		2001/1B1	Wet	Private	50	Mahalinga Nadar, S/o. Kala Perumal Nadar

[F. No. NHA/Tech/LA/MK/Therk-3(D)1/2006/LA-533]

PRAEHA KAR, Dy. Secy.